

सं. 3(6)/2016-ईजी-II
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
(ई-शासन समूह)

इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन
6, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली - 110003
दिनांक: 20.02.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्मार्ट सिटी प्रकोष्ठ (सेल) की स्थापना

स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार का शहरी नवीनीकरण और पुनसंयोजन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का ध्येय स्मार्ट सिटी को नागरिक मैत्रीपूर्ण और स्थायी बनाकर देश भर में उनका विकास करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के मिशन/कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन के डिजाइन का अभिन्न भाग हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से डीईआईटीवाई में स्मार्ट सिटी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह शहरी विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के लिए संपर्क करने हेतु एकल बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकोष्ठ की रचना निम्नानुसार होगी;

- | | |
|---|-------------------|
| i. श्री ए.के. बालानी, वरिष्ठ निदेशक, डीईआईटीवाई | - प्रभारी अधिकारी |
| ii. श्रीमती कविता भाटिया, निदेशक, डीईआईटीवाई | - सदस्य |
| iii. श्री विनय ठाकुर, निदेशक, एनईजीडी, डीईआईटीवाई | - सदस्य |
| iv. सी-डीएसी के प्रतिनिधि अधिकारी | - सदस्य |

2. स्मार्ट सिटी प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव (ई-गवर्नेंस), डीईआईटीवाई के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करेगा। इस प्रकोष्ठ के मौटे तौर पर विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

- चुने गए स्मार्ट शहरों में परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- डीपीआर/आरएफपी तैयार करने के लिए सहायता करना और प्रस्तुत परियोजनाओं के मूल्यांकन में मदद करना।
- आईटी आधारित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए परियोजना समन्वयकों को क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- आईटी अवसंरचना जैसे भारत सरकार क्लाउड, एनकेएन, एसडब्ल्यूएएन/एनआईसीएनईटी, मोबाइल सेवा आदि के संदर्भ में सहायता प्रदान करना।

- v. विभिन्न क्षेत्रों में सीडैक द्वारा विकसित की जा रही नवीनतम तकनीकों का अंतरण प्रदान करना।
3. यह सचिव, डीईआईटीवाई के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(संजीव मित्तल)
संयुक्त सचिव (ई-शासन)

सेवा में,

1. प्रकोष्ठ के सभी सदस्य
2. सभी जीसी, डीईआईटीवाई
3. पीएंडसीईओ, एनईजीडी, डीईआईटीवाई
4. एसओ (ईजी-II), डीईआईटीवाई
5. गार्ड फाइल

प्रतिलिपि:-

सचिव, डीईआईटीवाई



AS (SC)'s Office
Dy. No. 279
Date 24/2/2016
M/o UD